

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:— RWD/GST CLAIM/25-26/1237 - 2570 अनु०
प्रेषक,

पटना/दिनांक:— ०९.०७.२०२५

अभय झा, भा०प्र०से०

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल—सीतामढ़ी।

**विषय : MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या—12/SBD/2023-24 पथ—
Construction of road and CD work with maintenance for Rudauli M.Sah
house to B. Mandal Rudauli में जी०एस०टी० दावा की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग— कार्य प्रमंडल—पुपरी का पत्रांक—1078 अनु०, दिनांक—24.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 80,084/— का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 72,184/— मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:—

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

 ०९/०७/२५

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा

ज्ञापक— RWD/GST CLAIM/25-26/1237 - 2570

पटना/दिनांक:— ०९.०७.२०२५

प्रतिलिपि:—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल—पुपरी को सूचनार्थ।

 ०९/०७/२५

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 21.03.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road and CD Works with maintenance for Rudauli M.Sah House to B Mandal Rudauli in Bajpatti Block Path **एकरारनामा संख्या 12 S.B.D.of 2023-24** में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल पुपरी का पत्रांक 1078 दिनांक 24.04.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पुपरी द्वारा विषयांकित पथ में रु. **80,084/-** की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. **72,184/-** मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा **12 S.B.D.of 2023-24** विषयांकित कार्य Construction of Road and CD Works with maintenance for Rudauli M.Sah House to B Mandal Rudauli in Bajpatti Block Path के लिए दावे की राशि रु. **72,184/-** मात्र संवेदक कन्हैया कुमार दास, को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
विभागीय GST
Consultant

Prashant Kumar
सहायक वित्त प्रबंधक,
ब्रांडा

Prashant Kumar
वित्त प्रबंधक, ब्रांडा

Prashant Kumar
GST नोडल पदाधिकारी

05.05.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of Kanhaiya Kumar Das Works vide Agreement No. 12 S.B.D.of 2023-24

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, Pupri RWD letter no. 1078 dated 24/04/2024

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (in ₹)
12 S.B.D.of 2023-24	Construction of Road and CD Works with maintenance for Rudauli M.Sah House to B Mandal Rudauli in Bajpatti Block Path.	72,184 (Annexure-I)

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- a) That the above work is –
Construction of Road and CD Works with maintenance for Rudauli M.Sah House to B Mandal Rudauli in Bajpatti Block Path.
- b) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18/07/2022 GST@18% is payable.
- c) The impact is being given from **RA Bill 01**.
- d) The GST claim as submitted by contractor is **Rs.80,084/-** while as per our calculation it is **Rs. 72,184/-** which results in savings of **Rs. 7900/-**
- e) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

**For and on behalf of
SKKSS & Co.**

Shweta Singh
05/05/25

**Authorized Signatory
Enclosed: -**



- 1) *GST claim computation*

Annexure -I

Kanhaiya Kumar Das

12 S.B.D of 2023-24

Construction of Road and C.D. Works with maintenance for Rudauli M Sah House to B Mandal Rudauli in Bajpatti Block Path

Sl. No	RA Bill NO.	Date of payment	Payment as per Payment Certificate (A)	Embedded Tax (B) [Note 1]	GST paid as per GSTR 3B (C)	Actual GST to be Paid (D = (A - B) x 18%)	Claim (E = (C or D, which is lower) - B)
1	1	14-10-2023	1,523,192	160,167	232,351	245,344	72,184
TOTAL			1,523,192		232,351		

Computation of Embedded taxes [Note 1]

Particulars	Amount	GST embedded in total work done (%)
Work Done Value excluding taxes etc (as per RA 01) (Page -51)	1,334,728	
GST @ 12%	160,167	10.515%
LWC @ 1%	13,347	
Seigniorage Fees	14,950	
Work Done Value Including taxes, cess & S.Fees	1,523,192	
Payment made as per RA 01	1,523,192	
Embedded tax @ 10.515%	160,167	



Note-2

GSTR-3B QUARTERLY BREAKUP (October to December 2023) (Page-38)

Name of Division	Inclusive of Tax	Taxable Value	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI (RA-01)	18%	1,290,841	116,176	116,176	232,351
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI	18%	393,160	35,384	35,384	70,769
TOTAL		1,684,001	151,560	151,560	303,120

GSTR-7 Details (October- 2023) (Page-106)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 1%	SGST @ 1%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI (Page-35)	1,523,192	15,232	15,232	30,464
TOTAL	1,523,192	15,232	15,232	30,464

GSTR-7 Details (December - 2023) (Page-105)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 1%	SGST @ 1%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI (Page-34)	463,929	4,639	4,639	9,279
TOTAL	463,929	4,639	4,639	9,279

Disclaimer : The above Workings have been prepared on the basis of documents provided by the Contractor.

